

Ref: SEC/SE/2018-19 Date: 05.09.2018

Scrip Code: NSE & MSEI - DABUR, BSE-500096

To.

Corporate Relation Department BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E) Mumbai – 400 051.

Metropolitan Stock Exchange of India Limited 4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62 G-Block, Opposite Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400098

Sub: Publication of Notice for the attention of Equity Shareholders of the Company regarding the transfer of the equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir(s),

In compliance with Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of notice published in Financial Express (English Daily, All Edition) and Jansatta (Hindi Daily, Delhi Edition) both dated 5th September, 2018 for the attention of Equity Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity Shares of the Company to Investors Education and Protection Fund (IEPF) Authority, in accordance with Section 124 (6) Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit Transfer and Refund) Rules, 2016.

This is for information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Dabur India Limited

L Executive V P (Finance) and Company Secretary

Encl: as above

K Jain)

DABUR INDIA LIMITED

PRESS TRUST OF INDIA

MAURITIUS SAID ON Tuesday it is fully committed to implementing recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) amid reports that a Sebi panel wants tighter rules for foreign investors coming from non-FATF countries.

Mauritius is a member of the Eastern and Southern African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG) which was launched in 1999 and the ESAAMLG is also an associate member of the FATF since June 2010.

The FATF is an inter-governmental policy-making body that was set-up in 1989 to promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. It has 37 members, including India.

"By signing the memoran-He further said, "Mauritius

has, through the years, taken significant steps to enhance its

Date: 04-09-2018

Place: Mumbai

framework for anti-money laundering and combating the financing of terrorism and implement the recommendations contained in its mutual evaluation rep-

among the early countries to have been assessed under the Financial Sector Assessment Programme (FSAP). The assessment of stan-

SHASHANK TRADERS LIMITED

Registered office: 713, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New

Delhi -110 001, E-mail Id: info@shashankinfo.in, Website: www.shashankinfo.in

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act

2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Compan

has on September 04th, 2018 completed the dispatch of the notice of the 33rd Annual General

Meeting to be held on September 28, 2018 at 11.00 a.m. at Registered office of the Company

situated at 713, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- by

providing the facility of electronic voting to its members for seeking consent of Members for the item

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

September 22, 2018 to September 28, 2018 (both days inclusive) for the purpose of this Annual

Members can vote through electronic means. The Voting will commence on September 25

2018 at 09:00 a.m. and ends on September 27, 2018 at 05:00 p.m. Members attending the

meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their

The members who have acquired the shares after the dispatch of the Notice shall be eligible for

voting through electronic mode by obtaining login ld and password after logging or

www.evotingindia.com. The notice is also available on the website of the Company at

The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time as mentioned above in

A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote

Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. September 21, 2018) only

shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General

The Notice of Annual General Meeting will be available on www.shashankinfo.in and on the

portal of the exchange where the securities are listed. If any members require physical copy of

the notice can send a requisition on the registered office address of the Company situated at

Mr. Shubham Jain, Company Secretary & Compliance officer of the Company is responsible

to address the grievances connected with facility for voting by electronic means and all the

correspondence to that effect shall be addressed at registered office address: 713, Arunacha

Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001 and

713, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001.

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

as stated in the notice of Annual General Meeting dated September 03, 2018.

right at the Annual General Meeting by poll / physical ballot.

www.shashankinfo.in

info@shashankinfo.in.

Date: 04-09-2018

Place: New Delhi

Meeting.

dards and codes found a high level framework with international of compliance with internation-

By Order of Board

Praveen Jain

DIN - 01776424

For Shashank Traders Limited

Chairman & Managing Director

standards," he added.

Ø PXIL

Power Exchange India Limited Sumer plaza, Unit no.901, 9th Floor, Marol Maroshi Road, Andheri(East) Mumbai-400059 India, Tel:+ 91 22 40096667/87 Fax:+ 91 2240096633/90 Email: info@pxil.co.in. CIN:U74900MH2008PLC179152

Trading Month of August - 2018

Markets		DAS		INTRADAY	
	Traded	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volum (MUs
	Min	2.65	0.03	2.70	0.25
	Max	3.87	0.29	8.40	5.20
	Avg.	3.14	0.16	5.12	1.26
	Total	- 33	4.94	3	13.88

NOTICE TO SHAREHOLDERS

e-mail ID for investors: investors@mail.dabur

f Equity shares of the Company to Investor Education

and Protection Fund (IEPF Authority)

lotice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Companie Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 ("The Rules") as notified from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The Rules, contains provision for transfer of all equity shares in the Company to the Investor Education Protection Fund (IEPF Authority)in respect which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more in the prescribed manner. Hence, all underlying equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive year

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi -110 002 .

Tel. No.011-23253488, Fax No.011-23222051, CIN - L24230DL1975PLC007908, Website: www.dabur.com

or more from financial year 2011-12 Interim Dividend are required to be transferred to IEPF Authority as per The Rules dhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to the noemed shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for takin ppropriate action(s) and the names of such shareholders and their folio numbers or DP ID-Client ID are available or For claiming unpaid/unclaimed dividend, the concerned shareholders may contact Company's Registrar and Transfe

Agent at M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial Distric nakramguda, Hyderabad-500032, Telephone-040-67162222, email-id_einward.ris@karvy.com urther, shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may plea: note that the Company would be issuing new share certificates in lieu of the original share certificates held by them for the

urpose of conversion into demat form and subsequent transfer to demat accounts opened by IEPF Authority. Upon suc sue, the original share certificates which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deeme on-negotiable. In case of shareholders holding shares in demat form, the transfer of shares to the demat accounts of th IEPF Authority as indicated hereinabove shall be effected by the Company through the respective Depositories by way of

case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by December 01, 2018 to company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shar

hareholders are requested to note that the updated list of shareholders uploaded on the Company's website should be egarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificates for the purpose of ransfer of shares to Demat accounts of the IEPF Authority pursuant to the amended rules. Shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares along with dividend(s) from IEPF Authori

Place: New Delh Date: September 04, 2018

Ashok Kumar Jain EVP - Finance & Company Secretary

NTPC Limited

7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi -110003 Tel.: 011-24360100, Fax No.: 011-24361018 Email: isd@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in ATTENTION SHAREHOLDERS OF NTPC LTD.

Pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules, 2016), a Company is required to transfer the amounts of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) set up by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to IEPF Account.

The shares whose dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years till March 2018 had already been transferred to the IEPF Authority's Demat Account. Details of such holders is available on the website of the Company at www.ntpc.co.in.

The final dividend for the financial year 2010-11 @ Rs. 0.80 per equity share was paid on 26.09.2011. As per the provisions of the Companies Act, 2013, he unpaid and unclaimed amounts of aforesaid dividend would be due to transfer to Fund on 21.10.2018. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount/ shares are transferred to the Fund, then the same has to be claimed from 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under IEPF Rules, 2016. To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/claimed/encashed warrant(s) relating to the final dividend for financial year 2010-11 paid in September 2011 may lodge their claims with the STA i.e. Alankit Assignments Ltd. (Unit: NTPC Ltd.), Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 Tel.: (011) -4254 1956, 4254 1966, Fax: (011) - 4154 3474 and Email: alankit_ntpc@alankit.com or with the Investors Service Department, NTPC Ltd. at the address indicated above. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, is received by the STA/NTPC Ltd. on or before 20.10.2018, to ensure that unclaimed/ unpaid dividend amount and shares are not transferred to the Fund.

Shareholder(s) may refer to "IEPF Details" under "Investors" Section of the website: www.ntpc.co.in for further information with respect to unclaimed/ unpaid dividend/ shares due to be transferred to IEPF Account.

Subsequent last dates for lodging claims for unpaid/ unclaimed dividend and shares to IEPF are as under:-

Financial Year	Nature of Dividend	Dividend%	Last dates of lodging claims
2011-12	Interim	35.00%	25.02.2019
2011-12	Final	5.00%	16.10.2019
2012-13	Interim	37.50%	31.03.2020

NTPC Ltd. had also issued Bonus Debentures in March 2015. As on date certain Debentures are also lying unclaimed. Investors are also requested to check the details of such unclaimed Debentures under "Investors" Section of the website: www.ntpc.co.in and lodge the claim with the STA/ Company at

Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/ STA, in case of

shares held in physical form. For and on behalf of NTPC Ltd. Date: 04.09.2018

Place: New Delhi Company Secretary Leading the Power Sector



IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Regd. Office: Trident Complex, Raikot Road, Barnala-148101, Punjab

(Nandini Sarkar)

CIN: L24116PB1986PLC007030 Ph.+91-1679-244701-07, Fax:+91-1679-244708, E-mail: contact@iolcp.com, Website: www.iolcp.com

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, 29 September 2018 at 11:00 A.M. at its Registered Office at Trident Complex, Raikot Road, Barnala to transact the businesses, as specified in the Notice convening the AGM.

The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2017-18 has been sent to the members whose email ID are registered with Depository Participant/Company and to other members through permitted mode. These documents are also available on the website of the Company at www.iolcp.com. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM alongwith Annual Report on 04 September 2018.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members, the facility to cast their vote electronically (e-voting) through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting").

The remote e-voting period shall commence on 25 September 2018 at 09:00 A.M. and ends on 28 September 2018 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date or time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners on the cut-off date i.e. 22 September 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares on the cut-off date i.e. 22 September 2018, may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining user ID and Password is also described in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and CSDL's Website. If the member is already registered with CDSL for e-voting than he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have already exercised their vote by remote e-voting may attend

The facility of venue e-voting or polling paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-

In case you have any queries/issues/grievance connected with e-voting, you may refer the frequently asked question ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.comunder help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Rakesh Dalvi, Deputy Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013, Phone 1800225533.

read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23 September 2018 to 29 September 2018 for the purpose of AGM. By order of the Board

for IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

[Krishan Singla]

New Delhi, September 4

dum of understanding of the ESAAMLG in 1999, Mauritius endorsed the FATF recommendations and committed itself to implement these recommendations," said Faraz Rojid, the head of financial services at the **Economic Development Board** of Mauritius, in a statement.

The island nation has been one

ally accepted norms and best practices, he noted. "The FSAP also emphasized that Mauritius has taken several major steps to align its anti-money laundering and combating the financing of terrorism

MOHIT INDUSTRIES LIMITED

(CIN NO L17119GJ1991PLC015074) Regd. office: A-601/B, International Trade Centre, Majura Gate, Ring Road, Surat 395 002. (Gujarat) INDIA.

Phone: +91-261-2463261, 2463262, 2463263 Fax: +91-261-2463264 Email: contact@mohitindustries.com or cs_swati@mohitindustries.com Website: www.mohitindustries.com

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING - REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2017-18 have been sent in electronic mode to all the members

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mohit Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, 28th September, 2018 at 10.00 a.m. at 204, 2nd Floor, Jaysagar Complex, Behind J. K. Tower, Near Sub-Jail, Khatodara, Surat - 395 002 Gujarat to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the

whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are also available on the website of the company at www.mohitindustries.com. Physical Copies of Notice of AGM and Annual Report for 2017-18 have been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company/ Depository Participant(s) at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 04th September, 2018. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2015 ("the Rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the members. All the members are informed that: 1) The remote e-voting shall commence on 24th September, 2018 (9:00 am)

The remote e-voting shall end on 27th September, 2018 (5:00 pm). Cut-off date for purpose of remote e-voting is 21st September, 2018.

4) Any person, who acquires shares and become members of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2018, may obtain login ID and password by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact@mohitindustries.com. However if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

5) Members may note that: a. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after 05.00 p.m. on 27th September, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

 b. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. c. The members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Ballot papers. 6) The notice of AGM is available on the company's website www.mohitindustries.com and also on the NSDL's website

d. A person whose name is recorded in the register of member or in register of beneficial owners maintained by the

www.evoting.nsdl.com In case of any queries relating to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting

user manual for members available at downloads section of www.evoting.nsdl.com. In case of any grievances related to remote e-voting, contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depositories Limited at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or contact no. 022-24994360 or 1800-222-990. NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (LODR)

Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Monday 24th September, 2018 to Friday 28th September, 2018 (Both days inclusive) for purpose of 28th Annual General Meeting of the

By order of the Board For Mohit Industries Limited

Swati Malu Company Secretary

CANARA ROBECO

Canara Robeco Mutual Fund Investment Manager: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 21 Unit holders are requested to note that, in accordance with the SEBI circular no. SEBI/IMD/CIR No.1/64057/06

("KIM") issued by Canara Robeco Mutual Fund ("CRMF") from time to time: The requirement of giving notice shall not be compulsory for scheme/plan/option having frequency of dividend distribution from daily upto monthly dividend.

This addendum shall form an integral part of SID/KIM of the Scheme(s) of CRMF as amended from time to time.

dated 4th April, 2006, following statement shall be added under section **Dividend Distribution Procedure** of

all Open Ended Debt and Liquid Scheme Information Documents ("SID") and Key Information Memorandum

All other terms & conditions of SIDs/KIMs of the Scheme(s) of CRMF will remain unchanged.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund) **Authorised Signatory**

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

FORTIS HEALTHCARE LIMITED

Corporate Identity Number: L85110PB1996PLC045933

Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase VIII, Mohali-160062 Tel: 0172-5096001, Fax: 0172-5096221

Email Id: secretarial@fortishealthcare.com, Website: www.fortishealthcare.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Friday, September 28, 2018 at 12:30 p.m. (IST) at National Institute of Pharmaceutical Education and Research Mohali, Sector 67, SAS Nagar, Punjab 160062, to transact the business as mentioned in the Notice of AGM which has already been sent to the shareholders individually (who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(DPs) or Registrar and Transfer Agent (RTAs)), at their registered address along with Annual Report for the year 2017-18. The Notice and Annual Report have also been sent electronically to the members whose e-mail IDs are registered with their respective DPs/Company/RTAs (other than those who have requested for physical copy). Dispatch of the Notice of AGM was completed on September 4, 2018 to the members/beneficial owners whose name appeared in the register of members/list of beneficiaries, received from the depositories as on August 24, 2018.

The said Notice and Annual Report is available on Company's website and on the website of the RTA i.e. Karvy Computershare Private Limited (Karvy) - www.karvy.com. The relevant documents, if any, pertaining to the business to be transacted at the AGM are available at the registered office of the Company for inspection during normal business hours on all working days upto the date of AGM.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with relevant Rules made thereunder, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means. The Company has entered into an arrangement with Karvy for facilitating remote e-voting. The remote e-voting on the resolutions to be passed at the AGM of the Company shall commence on Tuesday, September 25, 2018 at 9.00 a.m. and end on Thursday, September 27, 2018 at 5.00 p.m. The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of September 21, 2018, may cast their vote electronically. Any person who becomes a member of the Company between August 24, 2018 and September 21, 2018, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

- a) If e-mail address of the member is registered against Folio No. /DP ID-Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID-Client ID and PAN to generate a password.
- b) Member may call Karvy's toll free number 1800 345 4001.

Date: September 5, 2018

Place : Gurugram

Member may send an e-mail request to einward.ris@karvy.com.

The Members holding shares as on the cut-off date of September 21, 2018, will only be allowed to vote at the Meeting through Ballot Paper. The members who have cast their vote by remote e-voting, may attend and participate at the Meeting, however they, shall not be entitled to vote again. The Company has appointed Mr. Mukesh Manglik, Company Secretary in Whole-time Practice (C.P. No. 8476) to act as scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner. In case of any concern with the e-voting process, the members of the Company are free to contact Mr. Rahul Ranjan, Compliance Officer at the above mentioned contact details or visit Help & FAQ's section available at Karvy's website, download section on https://evoting.karvy.com or contact Karvy at 1800 345 4001 or at Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500 032.

> For Fortis Healthcare Limited Rahul Ranjan

Company Secretary ICSI Membership No.: A17035

A ICICI

Place: Surat

Date: 05th September 2018

PRUDENTIAL

MUTUAL FUND

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135 Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Corporate Office: One BKC 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051. Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, website: www.icicipruamc.com, email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway,

Goregaon (E), Mumbai - 400063, Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313 Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund

(the Fund) Change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of Computer Age Management Services Private Limited (CAMS).

Investors/Unit holders are requested to note the change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of Computer Age Management Services Private Limited (CAMS), the Registrar and Transfer Agent of the Fund:

Old Address **New Address** Effective Date CAMS Service Centre CAMS Service Centre Nirmiti Eminence, Off No. 6, Vartak Pride, First Floor, First Floor, Opp. Abhishek Survey No. 46, City Survey No. 1477, Hingne Budruk, Hotel Mehandale Garage Road September D. P. Road, Behind Dinanath Erandawane, Pune - 411 004 10, 2018 Mangeshkar Hospital, Email Id: camspun@camsonline.com Karvenagar, Pune - 411 052 Email Id:

camspun@camsonline.com This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM of all the Schemes of the Fund, as amended from time to time.

above remain unchanged. For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai **Authorised Signatory** Date: September 4, 2018

CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others: 1800 200 6666 • Or, apply online at www.icicipruamc.com Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Sterlite Power Transmission Limited

Corporate Office: F-1, The Mira Corporate Suites, 1 and 2 Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065, India CIN: U74120PN2015PLC156643 | Phone: 011 499 622 00 | Fax: 011 499 622 88 Email: secretarial.grid@sterlite.com | www.sterlitepower.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, September 27, 2018 at 10.00 a.m. IST at 'The Westin', 36/3-B Koregaon Park Annexe, Mundhwa Road, Ghorpadi, Pune, Maharashtra -411001, India to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated August 10, 2018 ("the Notice").

Pursuant to the Companies Act, 2013, the Company is offering facility to all its members to exercise their vote by electronic

means on the resolutions as set out in the Notice. Members may cast their votes by using e-voting system from a place other than the venue for AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as Authorised Agency to provide the e-voting facility.

Company on Tuesday, September 04, 2018. The Notice of AGM and the Annual Report are also available on the Company's website at www.sterlitepower.com and Karvy's website at https://evoting.karvy.com. All the Members are informed that:

The remote e-voting period commences on Monday September 24, 2018 from 09.00 a.m. (IST) till Wednesday,

- voting or at the AGM. A person who has become a member of the Company after dispatch of the Notice & holds shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 20, 2018, may write to Karvy at einward.ris@karvy.com, requesting for user id and password.
- (IST) and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting, through ballot paper, shall be made available at the AGM; c) Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the AGM.
- In case of any grievances relating to the e-voting procedure Members are requested to contact Mr. Rajeev Kumar, Dy. Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032; email ID einward.ris@karvy.com; Phone No. 040-67161524. Further, in case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com

have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Place: Delhi Date: September 04, 2018

All the other provisions of the SID/KIM except as specifically modified herein

No. 005/09/2018

///Sterlite Power

Registered Office: 4th Floor, Godrej Millennium, 9 Koregaon Road, Pune, Maharashtra - 411001, India

The Notice and the Annual Report for the year ended March 31, 2018 have been dispatched/emailed to the members of the

September 26, 2018up to 5.00 p.m. (IST) 2. A person, whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 20, 2018 shall only be eligible to vote through remote e-

Members may note that: a) The remote e-voting shall not be allowed after Wednesday, September 26, 2018 05.00 p.m.

However, if the person is already registered with Karvy for remote e-voting then the existing user ID and password can be

Persons entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, CS Kuldeep Ruchandani (FCS no. 7971 & CP no. 8563) Partners, KPRC & Associates, Practicing Company Secretaries,

Members may also visit www.sterlitepower.com for details.

Ashok Ganesan Company Secretary & Compliance Officer

For Sterlite Power Transmission Limited

By order of the Board of Directors

the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

voting shall be able to vote at the meeting through venue e-voting or polling paper.

Notice further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013

Place : Barnala Vice President & Company Secretary Date: 04 September 2018

For Dabur India Limited

Corporate Identification Number: L40101DL1975GOI007966 Regd. Office: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex

आपकी पंसद की लड़की को अगवा कर सौंप दूंगा'

मुंबई, ४ सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक ने युवाओं को स्पष्ट रूप से कहा कि आप जिस लड़की को पसंद करते हैं, अगर वह आपके प्रस्ताव को ठुकराती है तब भी मैं उसका अपहरण कर लूंगा। विधायक राम कदम ने सोमवार रात मुंबई में उपनगर घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र में एक दही हांडी कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की। कदम घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

एक वीडियो क्लिप में उन्हें भीड़ को यह कहते हुए सुना गया है, 'आप (युवा) किसी भी काम के लिए मुझसे मिल सकते हैं।' कदम आगे कहते हैं कि उन्हें मदद के लिए ऐसे भी कुछ युवाओं के अनुरोध मिले हैं जिनके प्रस्ताव को लड़की ने ठुकरा दिया था। वीडियो में भीड़ को संबोधित करते हुए वह कहते हैं, 'मैं मदद करूंगा, 100 फीसद। अपने माता-पिता के साथ (मेरे पास) आइए। अगर माता-पिता इस पर रजामंदी देते हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं उस लड़की का अपहरण कर लुंगा और उसे (शादी के लिए) आपके हवाले कर दूंगा।' वीडियो में कदम भीड़ को अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए भी सुने गए हैं।

इस वीडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर कदम ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि उनकी टिप्पणियों पर राकांपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राकांपा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां सत्तारूढ़ पार्टी के रावण-सरीखे चेहरे को सामने लेकर आई हैं। महाराष्ट्र राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि कदम लड़िकयों के अपहरण के बारे में बोल रहे थे। मलिक ने संवाददाताओं से कहा, 'कदम ने जो भी कहा वह भाजपा के रावण-सरीखे चेहरे का खुलासा करती है। कदम ने कहा कि वह किसी लडके के लिए एक लडकी का अपहरण करेंगे। इसलिए उनको रावण कदम कहना चाहिए।'

मलाड में आग मुंबई, 4 सितंबर। मुंबई

के उपनगरीय क्षेत्र मलाड में मंगलवार

Trading Month of August - 2018 Markets Prices (Rs/KWh)

Min

Max

पूर्वाह्न एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई।

3.14 Avg. Total वी2 रिटेल लिमिटेड



2.65

3.87

पंजी. कार्यालयः खरारा नं0: 928, एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी, विलेज कापसहेडा, तहसील बसंत विहार, नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली -110037 CIN- L74999DL2001PLC147724, फोन: 011-41771850, ईमेल आईडी: cs@vrl.net.in, वेबसाइट: www.v2retail.com

OPXIL

Power Exchange India Limited

DAS

Sumer plaza, Unit no.901, 9th Floor, Marol Maroshi Road, Andheri(East) Mumbai-400059 India,Tel:+ 91 22 40096667/ 87 Fax:+ 91 2240096633/90

Volume

(MUs)

0.29

0.16

4.94

INTRADAY

(Rs/KWh)

2.70

8.40

5.12

Volume

(MUs)

0.25

5.20

1.26

13.88

17वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-मतदान सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठकः

एतदहारा सुचित किया जाता है कि वी2 रिटेल लिमिटेड (दि "कंपनी") की 17वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 29 सितंबर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे, खसरा नं0. 1138, शनि बाजार चौक, रजोकरी, नई दिल्ली–110038 में आयोजित की जाएगी, उक्त एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय का

कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वितीय विवरण (स्टेंडअलोन) और लेखा परीक्षकों और निर्देशकों की रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना के साथ युक्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 4 सितंबर, 2018 को पूरा कर लिया है और लेखा परीक्षकों और निर्देशकों की रिपोर्ट, सदस्यों के लिए भौतिक माध्यम से रखने वाले और डिमटेरिलाजेड माध्यम से रखने वाले के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड के रूप में जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में है और या तो कंपनी / रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / ढिपोंजिटरी पार्टिसिपेंट(ऑ), के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी को ईमेल द्वारा या कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत पते पर ढाक द्वारा भेजा गया। एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com पर प्रदर्शित किया गया है और साथ ही रविवार और सार्वजनिक छुटिदयों को छोडकर, प्रातः 11:00 से दोपहर 1:00 के बीच एजीएम की तारीख तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाऐगा।

यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2016 के नियमन 44 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांरण बुक्स रविवार 23 सितंबर, 2018 से शनिवार 29 सितंबर, 2018 (दोनों दिनों सहित) तक 29 सितम्बर, 2018 को

आयोजित कंपनी की एजीएम के उद्देश्य के लिए बंद रहेगी। (सी) ई-वोटिंग कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 108, के साथ पठित कंपनीज़ (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014

के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के नियमन 44 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी जो सुघना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर, एजीएम के आयोजन स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान (रिमोट ई-वोटिंग) से कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी ई-वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल से सेवाएँ ली हुई हैं। इसके अलावा एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वह भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि ब्हावार 26 सितम्बर 2018 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) पर शरू होगा और शकवार 28 सितम्बर 2017 को शाम: 5:00 बजे (आईएसटी) पर बंद होगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्यों, या तो भौतिक रूप में या जिमटेरिलाजेंड फॉर्म में शेयर धारण शनिवार, 22 सितंबर 2018 की कट ऑफ तिथि के आधार पर अपने वोट इलेक्टॉनिक रूप से डाल सकते हैं। सदस्यों को यह जात हो कि शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी

शनिवार 22 सितंबर, 2018 (कट ऑफ डेट) के रूप में सदस्यों के मतदाताओं के अधिकारों का उपयोग कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर पंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। मतदाता अधिकारों के हिसाब से कट-ऑफ तिथि के रूप में सदस्य नहीं होने वाले व्यक्ति को केवल सुचना के उद्देश्य के लिए सुचना

यदि कोई व्यक्ति जो एजीएम सूचना भेजने के पश्चात कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानि शनिवार 22 सितंबर, 2018 के आधार पर शेयरधारक है, वह लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेव के delhi@linkintime.co.in पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-मतदान के लिए मीजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में भाग | लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के द्वारा अपने मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम में मतदान करने

वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार 22 सितम्बर, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या डिपोंजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं, रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य www.evotingindia.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता परितका और अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) का अवलोकन कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या श्री उमेश कुमार, कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी और श्री विपिन कौशिक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, फोन नंबर 011-41771860, ईमेल आईडी: cs@vrl.net.in से संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग का नतीजा कंपनी की एजीएम में या उसके बाद घोषित किया जायेगा। निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किये जाने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com तथा लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट यानि www.linkintime.co.in पर दर्शाये जायेगें और क्रमशः स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् एनएसई एवं बीएसई नामतः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

बैठक में भाग लेने और वहां मतदान करने का अधिकारी कोई भी सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकारी है और वह प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। वैध और प्रभावी होने के लिए, प्रतिनिधि नियुक्ति साधन, एजीएम के प्रारंभ होने से अस्तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियाँ द्वारा कागजरहित अनुपालनों के उपयोग की स्वीकृति और कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार अपने सदस्यों को कोई भी सूचना / दस्तावेज (वार्षिक रिपोर्ट सहित) को ई-मेल द्वारा भेजने के लिए स्वीकृति के साथ "कॉर्पोरेट अभिशासन में हरित पहल" प्रारंभ की है। इसमें सहयोग देने के लिए सदस्यों को एतदद्वारा आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या / अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अपने संबंधित परिचालन ई—मेल आईडी को पंजीकृत कराने, अपडेट एवं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, सदस्यों को एतदद्वारा आरटीए अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या / अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अनुरोध भेजकर अपना केवाईसी अपडेट कराने का अनुरोध

भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 दिनांक 8 जून, 2018 एवं अन्य संबंधित सहायक अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों यथासंशोधित के अनुसरण में भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एतदद्वारा अपने आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या / अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अनुरोध भेजकर इन्हें तुरंत अमूर्तीकृत प्रारूप में बदलने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 04.09.2018

कृते वी2 रिटेल लिगिटेड हस्ता /-

(राम चंद्र अग्रवाल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN 00491885

Date: 4" September, 2018

Place : Delhi

बारातियों से भरी बस मिनी बस से टकराई, सात की मौत

अलीगढ, ४ सितंबर (भाषा)।

बारातियों को लेकर जा रही एक निजी बस की मंगलवार को मिनी बस से टक्कर हो जाने से सात लोगों की मौत हो गई और 20 घायल को जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज में

एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि टक्कर आगरा रोड पर हुई। बस बारातियों को लेकर फिरोजाबाद की ओर जा रही थी। घायलों

दाखिल कराया गया है। मिनी बस के चालक और छह अन्य की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार निजी बस में 50 बाराती सवार थे। मिनी बस के मृत चालक की पहचान पवन (45) के रूप में हुई है।



CIN - L24230DL1975PLC007908, Website: www.dabur.com e-mail ID for investors: investors@mail.dabur शेयरधारकों के लिए सूचना

सूचनापत्र कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानंकर्ता शिक्षा और सरंबण कोष प्राधिकरण अंतरण और वापसी) नियम 2016 (नियम) जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय प बिधसुचित किए गए हैं के अतंर्गत दिया जा रहा है। आईईपीएफ निवम 2016 में ऐसे सभी श्रेयरों जिनके संबंध में लगात ात सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लामांश की अदायगी अथवा शेयरुपारकों द्वारा दावा नही किया गया हो, की विनिधानकर्ता शिक्षा और सर्वक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तीर पर इस्तांतरण हेत प्रावधान शामिल है। अतः ऐसे सभी अंतर्निहित शेयरों को, जिनके सम्बन्ध में गत सात वर्षों, वितीय वर्ष 2011–2012 से (अन्तरिम लामांश) लाभांश की अदायगी 🗸 दावा नहीं किया गया है. को कथित नियम के अनसार आईईपीएक प्राधिकरण के डीमेट खाते में इस्तांतरिर

विनिधानकर्ता शिक्षा और सरंक्षण कोष प्राधिकरण के पास कम्पनी के इक्विटी शेवरों का अंतरण

निवमों में स्थापित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में, कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयस्थारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचन दी है जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाएगा। नियमों में लिखित उपवृक्त कार्य के अंतर्गत निवत शेयरपारकों का नाम, फोलियो नं/डीपीआईडी - ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट www.dabur.com प

अदत / अनिधयाधित लाभांश का दावा करने के लिए संबंधित शेयरधारक, कम्पनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, कार्यी कम्प्यूटर शेयर प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी शेलेनियम टावर बी, प्लाट नं-31-32 गाफीबावली, फाइनाशियल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद 500032, टेली न.-040-67162222, ईमेल-einward.ris@karvy.com से संपर्क कर सकते हैं। नाएगा यह ध्यान रखें कि कारानी दीमेंट पहले में रूपानंत्रण के जटहेशा से लगा आईईपीएफ पाधिकरण के जटन खले दीमें ाले में आगामी स्थानांतरण के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमागपत्र (त्रॉ) के बदले में नए शेवर प्रमाणपत्र जार करेगी। शेयर जारी करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकत मल शेयर प्रमाणपत्र स्वत: निरस्त हो जाएंगे तथा इसे र् परकाग्य माना जाएगा। शेयरधारक जो ढीमेट पदित में शेयर धारित करते हैं, उनके शेवरों का स्थानांतरण सबंधित निक्षेपस्थान के द्वारा कॉर्पोरेट प्रक्रिया के मध्यम से आईईपीएक प्राधिकरण के डीमेट खाते में कम्पनी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। यदि दिसम्बर 01, 2018 तक शेयरधारकों से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी कोष प्रधिकरण (लेखांक-लेखापरीक्षा अतरण और वापसी) नियमों के अनुसार उन शेयरधारकों के शेयर आईईपीफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये

शेयरधारकों से अनुरोध है, कृप्या ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरधारकों की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोठ की गई , उसे कम्पनी द्वारा नए प्रमाणपत्र निर्गमन जिनका अंतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के दीमेट खाते में किए जाना है, उसके संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा। संबंधित शेयरधारक कृप्या ध्यान वें कि अंतरित शेयरों और लाभांशों को आईईपीएफ प्रधिकरण से पुनःदावा करके प्राप्त

किया जा सकता है, जिनका विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। डाबर इंडिया लिमिटेड ए. के. जैन ई.वी.पी.(फाईनेन्स) एवं कम्पनी सचिव

देनांकः 04 सितम्बर, 2018

Fullerton

प्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट क. लि. पंजीकत कार्यालय: मेघ टावर्स, 3रा तल, ओल्ड नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली

हाई रोड, मदुरावोयल चेन्नई, तमिलनाडु, शाखा कार्यालय: 1बी, 4था तल, पूसा रोड, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली

> कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम 8-(1)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत मै. फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, 3रा तल, ओल्ड नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु में है तथा शाखा कर्यालय 1बी, 4था तल, पूसा रोड, पूराना राजेन्दर नगर, नई दिल्ली में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 8.5.2017 जारी कर आप ऋणधारकों मै. एडवांस सर्फेक्टैटस इंडिया लिमिटेड. श्री अशोक महिन्द्र, श्री आशुतोष महिन्द्र, श्रीमती साधना महिन्द्र, मै. एमन होल्डिंग्स प्रा.लि., मै. साकार पोर्टफोलिओ प्रा.लि., मै. एस डिटर्जेन्ट प्रा.लि., मै. देलही डिटर्जेन्ट प्रा.लि., श्री कृष्णा टैंकर्स प्रा.लि. को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना में वर्णित राशि रु. 24,35,59,779/- (रुपये चौबीस करोड़ पैंतीस लाख उन्सठ हजार सात सौ उन्यासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उपरोक्त ऋणधारक इस राशि का भूगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आदेश तिथि 30.7.18 के माध्यम से विद्वान सीएमएम, दिल्ली द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति के शेष भाग का कब्जा कर लिया है तथा 30.8.2018 को उसे फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

विशेष रूप से यहां ऊपर वर्णित ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा उक्त सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 24,35,59,779/- (रुपये चौबीस करोड पैंतीस लाख उन्सठ हजार सात सौ उन्यासी मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये मै. फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पूर्ण सम्पत्ति, निर्मित सम्पत्ति तथा भूमि जो खसरा नं. 510/1 (2-4) एवं खसरा नं. 511/1 (5-5) तथा खसरा नं. 511/2/1, ग्राम रजोकरी, नई दिल्ली-110038 में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा

स्थानः दिल्ली तिथि: 31.8.2018

प्राधिकृत अधिकारी (फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

(CIN: L74140DL1997PLC088373) Regd. Office: B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate,

Industrial Area Patparganj, New Delhi-110092 Tel No.: 011-22162970, email: ceo@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com

website: www.aceintegrated.com

NOTICE OF 2187 ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 21" Annual General Meeting (AGM) of Ace Integrated Solutions Limited is scheduled to be held on Thursday, the 27" day of September, 2018 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company at B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate, Industrial Area Patpargani, New Delhi-110092 to transact the business as set forth in the Notice of 21 AGM

Notice has been sent to all the Members of the Company, whose name appeared on the Register of Member or Register of beneficial owners maintained by Depositories as on Friday, 24" August, 2018. Electronic Copies of the Notice of the 21" AGM and 21" Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 have been sent to all the members whose Email IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members, whose Email IDs are not registered with the Company or Depository Participant(s), at their registered address in the permitted mode. The process of dispatch of Notice of 21" AGM and 21" Annual Report 2017-18 in Physical and Electronic mode is completed on Tuesday, 4th September, 2018.

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ('the Rules' as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business transacted as set forth in the Notice of Annual General Meeting of the Company through the remote evoting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of Annual General Meeting which has been sent to the Members.

- The Notice of the 21st Annual General Meeting is available on the Company's website www.aceintegrated.com and on CDSL website www.evotingindia.com and 21"Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 is available on the Company's website www.aceintegrated.com.
- The remote e-voting will commence on Monday, 24" September, 2018 (9:00 a.m.) The remote e-voting will end on Wednesday, 26" September, 2018 (5:00 p.m.)
- The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 p.m. on Wednesday, 26th September, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The Members holding shares either in physical form or dematerialized form, on cut-off

- date i.e. 20th September, 2018 may cast their vote electronically to transact the business set forth in the Notice of AGM Person who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 2011 September, 2018 may cast their votes by following the instructions and process of
- remote e-voting as provided in the Notice of the AGM. A person whose name is recorded in the Registers of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
- Members may participate in the annual general meeting even after exercising right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. In case of any gueries relating to e-voting, member/ beneficial may refer the frequently
- asked questions ("FAQs") and e-voting manual available at the CDSL website: www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. 11. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Central Depository Services (India) Limited, AWing, 25th Floor, Marathon
- Futurex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013, or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to Members. Members are requested to submit duly

filled in Attendance Slip at the Registration counter to attend the AGM. Closure of Register of Members and Share Transfer Books of the Company Pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 21st September, 2018 to Thursday, 27th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose

of holding 21" Annual General Meeting of the Company. For ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Ranjeet Singh

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 128, पहली मॉजिल, शिवा मार्किट पीतमपुरा उत्तर दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.grmrice.com ईमेल आईडी: grmrice1@gmail.com टेली. नं. 011-47330330 फैक्स नं. 011-0180-2653673 CIN: L74899DL1995PLC064007

एतदुद्वारा सृचित किया जाता है कि जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के सदस्यों की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक एजीएम की सचना में वर्णित अनुसार व्यापार का लेन-देन के लिए शनिवार, 29 सितंबर 2018 को सुबह 11.00 बजे एमएच वन रिसॉर्ट होटल बकौली अलीपुर, मेन जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110036 में

24वीं एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक मोड में जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी या डिपोजटरी प्रतिभागी(यों)के साथ पंजीकत है, को भेज दी गई है और अन्य सभी सदस्यों को अनुमानित मोड में उनके पंजीकृत पते पर 24वीं एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजी जा

कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पटित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और समय-समय पर संशोधित अनुसार सेबी (सचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्ताव पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। मैंसर्स देवेज अरोड़ा व एसोसिएट्स को निष्यक्ष को पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और बैलेट पेपर की

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत 26 सितंबर, 2018 (सुबह 9.00 वजे) से होगी और 28 सितंबर, 2018 को (शाम 5.00 बजे) बंद होगी।

जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियक्त किया है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार

- व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ-डेट अर्थात् 22 सितंबर, 2018 तक डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई-बोटिंग/बैलेट पेपर के द्वारा एजीएम में बोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- कंपनी के शेयर रखने वाला और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनने वाला और कट-ऑफ डेट अर्थात् 22 सितंबर, 2018 तक शेयर रखने वाले कोई व्यक्ति evoting@nsdl.co.in या आरटीए अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- . 24वीं एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com पर भी
- बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने वाले सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम स्थल पर दोबारा अपने वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे।
- इलैक्ट्रानिक वोटिंग निर्देश के लिए, सदस्य 24वीं एजीएम की सूचना में निर्देश देख सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग/बैलेट पेपर द्वारा एजीएम में बोटिंग के परिणाम 01 अक्टबर, 2018 तक या पहले घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता रिपोर्ट के सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट ्रण्हतउतपबमण्यवउ पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी भेजे

सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 व उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं शनिवार, 22,09,2018 से शनिवार, 29,09,2018 (दोनों दिन शामिल) तक कंपनी की 24वीं एजीएम के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड रोहित गर्ग

दिनांक : 04,09,2018

प्रबंध निदेशक

कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड (CIN: L65999DL1983PLC016585)

पंजीकृत कार्यालयः 77 ए, ब्लॉक बी ग्रेटर कैलाश – । नई दिल्ली – 110048 ई-मेल: combineholdinglimited@gmail.com , दूरभाष सं.: 011-43537401, वेबसाइटः : www.combineholding.in

तदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, सितंबर 28, 2018 दोपहर 11:00 बजे, 77 ए, ब्लॉक बी ग्रेटर कैलाश – I, नई दिल्ली

कम्पनी एजीएम की बैठक की सचना और वित्त वर्ष 2017–18 की सालाना रिपोर्ट भेजने का काम 04 सितंबर 2018 को पूरा कर चुकी है। इस संवाद के साथ 2017–18 की सालाना रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.combineholding.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। अन्य जानकारियों के साथ रिमोट ई—वोटिंग से संबद्ध संवाद में सदस्यों के यूज़र आईडी। सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उदघोषणा) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम,

2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कम्पनी सहर्ष अपने सदस्यों को बैठक के अतिरिक्त अन्य स्थान से इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान (रिमोट ई–वोटिंग) की सविधा दे रही है। कम्पनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को ई–वोटिंग कराने के लिए अधिकृत एजेंसी चुना है और सुश्री साक्षी मितल (साक्षी मितल एंड एसोसिएटस) को ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रुटाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है । रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश नीचे दिए गए हैं

रिमोट ई-वोटिंग की आरंभिक तिथि एवं समय: 25 सितंबर 2018 (सुबह 9:00 बजे)

 रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि एवं समय : 27 सितंबर 2018 (शाम 5.00 बजे तक) 27 सितंबर 2018 (शाम 5.00 बजे) के बाद रिमोट ई-वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी

- 4. 21 सितंबर 2018 अर्थात कट-ऑफ तिथि में जिनके नाम कम्पनी के सदस्यों की पंजी / लाभार्थियों की पंजी में दर्ज होगी उन्हें रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।
- 5. यदि किसी व्यक्ति का नाम यह सूचना भेजने के बाद पंजी में आता है और वह कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक है तो कम्पनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्य के पहले से सीडीएसएल में पेजीकृत होने पर वर्तमान युजर आईडी और पासवर्ड के जरिये रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने का
- एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा होगी। पहले ही रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं कर चुके सदस्य बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं पर दबारा मतदान नहीं कर सकते।
- रिमोट ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित पते पर सम्पर्के कर सकते हैं: श्री राकेश दलवी, पदनाम उप प्रबंधक, पताः ए विंग, 25 वें तल मैराथन प्रयूचरक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013, ई-मेल आईडी: helpdesk evotina@cdslindia.com. फोन नम्बर: 18002005533 सदस्यगण combineholdinglimited @gmail.com. पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।
- कम्पनी 35वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना समेत वित्त वर्ष 2017-18 की सालाना रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं और जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकत नहीं हैं उनके पंजीकत पते पर मान्य माध्यम से उपरोक्त दस्तावेज भौतिक रूप में भेज दिए गए हैं।
- 10. कम्पनी के सदस्यों की पंजी एवं कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तिका वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 22 सितंबर, 2018 से शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 (दोनों दिन कृते कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड शामिल) तक बंद रहेंगी।

तिथि: सितंबर 04, 2018 स्थानः नई दिल्ली

महक देवगन कम्पनी सचिव



SHIVKAMAL IMPEX LIMITED fice: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016 CIN: L52110DL1985PLC019893

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of M/s Shivkamal Impex Limited will be held on Saturday, September 29, 2018 at 3.00 P.M. at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block P-7. Green Park Extension, New Delhi- 110016 to transact the businesses as set out

Notice has been sent to all the Members of the Company, whose name appeared on the Register of Members or the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Friday, August 31, 2018. The Notice of 33rd AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to the Members whose email Ds are registered with the Company or the Depository Participant(s) and Physical copies to all other members in the permitted mode. The dispatch of notice of 33rd AGM and Annual Report has been completed on September 04.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.shivkamalimpex.com and NSDL e-voting website www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, September 23, 2018 to Saturday, September 29, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Businesses may be transacted through voting by electronic mode. Members may please note that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company has provided remote electronic voting facility for transacting all the items of business through National Securities Depository Limited (NSDL) which will commence on Wednesday, September 26, 2018 at 09.00 A.M. and ends on Friday, September 28, 2018 at 05.00 P.M. and remote voting shall not be allowed thereafter. Attention is also invited to Notes to the 33rd AGM Notice, giving instruction on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2018 may obtain Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA at

The ballot or polling paper shall be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the general meeting even after the exercising his right to vote through remote evoting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the Register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on cut off date i.e. September 22, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting. For any queries and issues related to E-voting, you may refer to the Frequently

Asked Questions (FAQs) for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or Contact Ms. Pallavi Mhatre, (Assistant Manager), National Securities Depository Services Limited, Trade World, 'A'Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, evoting@nsdl.co.in; pallavid@nsdl.co.in Phone No. 022-24994600/1800-222-990 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. By the order of the Board For Shivkamal Impex Limited

Jyoti Gupta

CIN: U74114DL1983PTC329146

पंजीकृत कार्यालयः बी-41, महारानीबाग, नई दिल्ली-110065

ईस्ट इंडिया एक्स्क्लूसिव फैब्रिक्स प्रा.लि.

यह सूचना ईस्ट इंडिया एक्स्क्लूसिव फैब्रिक्स प्रा.लि. (CIN: U74114DL1983PTC329146), निगमन प्रमाणपत्र तिथि 26 नवम्बर, 1983 के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-41, महारानीबाग, नई दिल्ली-110065 में है (यहाँ के बाद कम्पनी के रूप में वर्णित) के संदर्भ में जारी की जा रही है।

जैसा कि कम्पनी में केवल दो ही निदेशकों अर्थात् श्रीमती इन्दिरा लोहिया (DIN: 00897501) तथा श्री हर्ष गुप्ता (DIN: 00899037) थे जिनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2007 से की गई थी। 8 मार्च, 2018 को कम्पनी ने नये निदेशकों श्री संदीप अग्रवाल (DIN: 07778680) तथा श्री राम सिंह (DIN: 07778614) की नियुक्ति तथा उपरोक्त पुराने निदेशकों (श्रीमती इन्दिरा लोहिया तथा श्री हर्ष गुप्ता) के पद त्याग के साथ कम्पनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया। लेकिन, कम्पनी ने गलती से आने वाले नये निदेशकों की नियुक्ति के लिये ई-फार्म डीआईआर-12 को दाखिल करने से पूर्व जाने वाले दोनों निदेशकों के पदत्याग के संदर्भ में ई-फार्म डीआईआर-11 दाखिल कर दिया। इस भूल के कारण कम्पनी नियुक्ति तथा पदत्याग को प्रभावी करने के लिये कोई ई-प्रपत्र दाखिल करने में सक्षम नहीं है।

कम्पनी ने नये निदेशकों की नियुक्ति को प्रभावी करने के लिये श्री हर्ष गुप्ता (DIN: 00899037) निदेशकों में एक जिन्होंने हाल ही में पदत्याग किये हैं, के डीएससी के उपयोग को सक्षम बनाने के लिये नई दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली तथा हरियाणा के पास अनुरोध किया है।

उपरोक्त अनुरोध से यदि किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे ऊपर वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली तथा हरियाणा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, 4था तल, आईएफसीआई

टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास भेजें। कृते एवं के लिये

तिथि: 3 सितम्बर, 2018 स्थानः नई दिल्ली

DIN:00899037

THE DELHI FLOUR MILLS COMPANY LIMITED CIN: U74899DL1916PLC000035

Registered Office: 8377-8381, Roshanara Road, Delhi-110007 Tel: 011-23826445, Fax: 011-23822409, Email: dfm@dfmgroup.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 102" Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, 7, Sham Nath Marg, Delhi-110054, to transact the businesses as set out in the Notice dated 18" July, 2018. The said Notice convening the AGM along with Annual Report 2017-18 containing Attendance slips and Proxy Form has been dispatched to all the Members at

appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxy Form

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to

Transfer Books of the Company will remain closed from 15th September, 2018 to 28th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

> For The Delhi Flour Mills Co. Ltd. Sd/-

Place: Delhi Dated: 4th September, 2018

transact the business as mentioned in the notice.

Regd. Off .:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building. 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING. EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- Electronic copies of the notice of the 31st AGM and the annual report of the Company for the financial year 2017-18 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/ Depository participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The notice of the 31st
- of 21st September, 2018, may cast their vote electronically on the ordinary and Special Business (es) as set out in the notice of the 31st AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Members are informed that
- other documents is completed by 4th September, 2018. b) The company is availing the services of M/s Central Depository Services (India) Limited for
- facilitating the E-voting facility to it members. E-voting shall commence on Tuesday, 25th September 2018 at 9.00 a.m and will end on Thursday, 27th September 2018 at 6.00 p.m.
- e) In case of any queries, members may visit Help and FAQ section & evoting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of

Place: New Delhi Date: 05.09.2018

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर दूरसंचार सदन, 5वां तल, 9, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 फोनः 011-24319020, फैक्सः 011-24324243 वेबसाइटः www.mtnl.net.in, www.bol.net.ir

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 को प्रातः 11:30 बजे ऑडिटोरियम्, महानगर दूरसंचार सदन, 9 सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी। बैठक में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय के बारे में विस्तृत सूचना के साथ 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है और यह वेबसाइट

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 42 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसरण में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका शनिवार, 22 सितम्बर, 2018 से शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 (दोनों दिवस

- शामिल) तक एजीएम के प्रयोजन हेत बंद रहेंगे। एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्टोंनिक रूप से भी भेज दी गई है जिन्होंने अपना ई-मेल आईडी पंजीकत कराया है। कोई भी इच्छक सदस्य जिसे वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति चाहिए, वह कम्पनी को लिख सकता है और उसे यह नि:शल्क उपलब्ध करायी जाएगी। कोई भी सदस्य जिसे वार्षिक रिपोर्ट नहीं मिली है या कोई भी निवेशक जो वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य बने हैं, वह वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के लिए पंजीकृत कार्यालय पते पर कम्पनी सचिव के पास अनुरोध पत्र भेज सकते हैं
- (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जा रही रिमोट ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपना वोट देने का विकल्प होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी जिसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग बंद कर एजीएम में भाग लेने एवं वोट देने का पात्र सदस्य अपनी ओर से भाग लेने एवं वोट देने के
- नहीं है। प्रॉक्सी की नियुक्ति से संबंधित सभी वैध एवं प्रभावी दस्तावेज विधिवत भरकर, हस्ताक्षरित एवं मुहर लगाकर बैठक प्रारंभ होने से अड़तालीस (48) घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी रवामी के रजिस्टर में अंतिम तिथि अर्थात 21 सितम्बर, 2018 को दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में वोट देने के पात्र होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम्पनी के शेयर हैं और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी के सदस्य बनते हैं और
- एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- सदस्यगण जिन्होंने बैठक से पूर्व ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, ऐसा सदस्य जिसने इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही साथ बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दिया
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा 'डाउनलोड्स अनुमाग' के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों हेतु ई—वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं या आप "श्री मंदार गायकवाड़ (सहायक प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in, फोन: 1800 222 990 / 91 22 24994200 / 91 22 24994559 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी हेत कम्पनी की वेबसाइट www.mtnl.net.in और मैसर्स नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को भी सुचित किया जाएगा।

दिनांकः 05.09.2018

ईस्ट इंडिया एक्स्क्लूसिव फैब्रिक्स प्रा.लि.

the 28" day of September, 2018 at 4.00 P.M. at Maidens Hotel, their registered addresses on or before 4" September, 2018.

should be deposited at the registered office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share

By order of the Board

(N.K. Arora) Company Secretary

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the company will be held on Friday, September 28, 2018 at 9.00 A.M at 290, Gagan Vihar, New Delhi - 110051 to

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023530

AGM and the annual report for the Financial year 2017-18 is also available on the company's Members holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cutoff date

The electronic transmission/Physical dispatch of Annual report, Notice of 31st AGM and

c) The voting module shall be disabled by CDSL for voting after 6.00 p.m. on 27th September 2018 d) The notice of the 31st AGM is available on the Company's website www.rrfcl.com and CDSL website https://evoting.cdslindia.com and;

Members and Share Transfer Books for Equity shares of the company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Friday, 28th September, 2018 (both days inclusive) for

For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Rajat Prasad Managing Director

CIN: L32101DL1986GOI023501, पंजीकृत एवं निगम कार्यालयः

वार्षिक आम बैठक, ई—वोटिंग और बुक क्लोजर तिथि की सूचना

www.mtnl.net.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

तथा व्यक्तिगत या प्रॉक्सी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। सदस्यों के पास 32वीं एजीएम में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे प्रॉक्सी को कम्पनी की सदस्य होना आवश्यक

कथित अंतिम तिथि को शेयर धारण करते हैं, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं, अपना वोट देने के लिए वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड उपयोग कर सकते हैं।

है तो उसके द्वारा बैलेट पेपर से दिया गया वोट मान्य नहीं होगा। किसी भी पूछताछ के लिए आप वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर सदस्यों हेतु

10. सभी प्रस्तावों पर परिणाम कम्पनी की एजीएम समाप्त होने के 3 दिन के भीतर घोषित कर

कृते एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की ओर से स्थानः नई दिल्ली एस. आर. सयाल कम्पनी सचिव

Date: 04.09.2018 (Company Secretary (Company Secretary) Place: New Delhi & Compliance Officer)

जनसत्ता, 5 सितंबर, 2018 11

सार्वजनिक सुचना